



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 जून, 2020
ज्येष्ठ 20, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या-714/9-1-2020-14सा-20
लखनऊ, 10 जून, 2020

अधिसूचना

प० आ०-167

अधिसूचना संख्या 436/9-1-20-14सा/20, दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा श्री अनिल कुमार पुत्र स्व० कृष्ण कुमार पटेल, वार्ड संख्या-9, नियर पोस्ट आफिस भगवन्तनगर, जनपद उन्नाव को नगर पंचायत भगवन्तनगर, जनपद उन्नाव में सदस्य नामित किया गया है।

2-सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अधिसूचना दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा नगर पंचायत भगवन्तनगर, जनपद उन्नाव में नामित सदस्य श्री अनिल कुमार पुत्र स्व० कृष्ण कुमार पटेल, वार्ड संख्या-9, नियर पोस्ट आफिस भगवन्तनगर, जनपद उन्नाव का मनोनयन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।